



ब्रैम्पटन के 2022 के म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (23 अगस्त, 2022) – ब्रैम्पटन के 2022 के म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव (Municipal and School Board Election) के लिए नामांकन, पिछले सप्ताह, शुक्रवार, 19 अगस्त को बंद हो गए थे।

उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची, जैसे कि सिटी क्लर्क के ऑफिस द्वारा प्रमाणित किया गया है, [सिटी की वेबसाइट \(City's website\) www.brampton.ca/bramptonvotes](http://www.brampton.ca/bramptonvotes) पर उपलब्ध है।

मौखिक-मतदान द्वारा चुना जाना

म्युनिसिपल इलेक्शन्स एक्ट, 1996 (Municipal Elections Act, 1996) निश्चित करता है कि, यदि, नामांकन दिवस के बाद वाले सोमवार को शाम 4 बजे, किसी ऑफिस के लिए प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या, चुने जाने के लिए समान या उससे कम होती है, तो क्लर्क तुरंत उम्मीदवार या उम्मीदवारों को, मौखिक-मतदान से चुना हुआ घोषित कर देगा। ट्रस्टी, काउंसिल स्कॉलेयर वायामोंड (Trustee, Conseil scolaire Viamonde) के ऑफिस के लिए केवल एक नामांकन प्राप्त हुआ है। यह सफल उम्मीदवार, यवोन रोचफोर्ट (Yvon Rochefort) को, मौखिक-मतदान के द्वारा चुना हुआ बनाता है।

झलकियां

- 2022 के म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव, सोमवार, 24 अक्टूबर को होगा। वोटिंग का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक है।
- वोटिंग स्थान संबंधी जानकारी, सितम्बर में सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
- यदि आप 24 अक्टूबर को वोट नहीं डाल सकते, तो किसी भी एडवांस वोटिंग (Advance Voting) दिनों, 7, 8, 9, 14 या 15 अक्टूबर को वोट डालने पर विचार करें। एडवांस वोटिंग के बारे में जानकारी, सितम्बर में सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। एडवांस वोटिंग, कम्युनिटी के उन मेम्बरों के लिए एक अच्छा विकल्प भी है, जो दीवाली (Diwali) और बंदी छोड़ दिवस (Bandi Chhor Divas) का जशन मनाने में व्यस्त होंगे, जो इस वर्ष वोटिंग डे को ही है।
- प्रॉक्सी वोटिंग: यदि आप ब्रैम्पटन के योग्य मतदाता हैं, जो वोटिंग डे को या एडवांस वोटिंग की किसी भी तिथि को वोट नहीं डाल सकते हैं, तो आप अपनी ओर से वोट डालने के लिए, ब्रैम्पटन के किसी अन्य योग्य मतदाता को अपॉइंट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जिसे वोटर्स सूची में है या जिनका नाम वोटर्स सूची में शामिल किया हुआ है, वह प्रॉक्सी के द्वारा वोट डाल सकता है। प्रॉक्सी वोटिंग के बारे में अधिक जानकारी, जल्द ही सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

- होम वोटिंग सेवा: वे योग्य मतदाता, जो बीमारी, चोट या विकलांगता के कारण घर पर रहने के लिए मजबूर हैं, 11, 12 और 13 अक्टूबर को होम वोटिंग (Home Voting) सेवा का प्रयोग करते हुए वोट डालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन व्यक्तियों के लिए सीमित अपॉइंटमेंट्स उपलब्ध होंगी, जो योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। सेवा और अपॉइंटमेंट प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी, जल्द ही सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
- अपनी आई.डी. लेकर आएं: मतदाताओं के लिए आवश्यक है कि वोट डालने के लिए अपने साथ एक पहचान पत्र लेकर आएं, जिस पर उनका नाम और योग्य ब्रैम्पटन का पता लिखा हो। वोटिंग से पहले, पहचान के लिए [स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची \(list of acceptable documents\)](#) देखें।
- अभी म्युनिसिपल चुनाव वर्कर बनने के लिए आवेदन करें और वोटिंग डे को एडमिनिस्ट्रेटिव तथा ग्राहक सेवा कार्यों में सहायता करें। 2,000 से अधिक पद उपलब्ध हैं। ब्रैम्पटन के 18 वर्ष या अधिक उम्र के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह नए कौशल प्राप्त करने, सिटी के स्टाफ को जानने और आपकी कम्युनिटी से जुड़ने का शानदार अवसर है।
- तृतीय पक्ष विज्ञापन: संभावी तृतीय पक्ष विज्ञापक, ब्रैम्पटन में विज्ञापन देने के लिए 21 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं। तृतीय पक्ष विज्ञापन, योग्यता शर्तों और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी, [यहां \(here\)](#) उपलब्ध है।

2022 के म्युनिसिपल और स्कूल बोर्ड चुनाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/bramptonvotes पर जाएं।

-30-

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca